

Neeraj Paper Marketing Ltd.

CIN: L74899DL1995PLC066194

Regd. Office: 218-222, Aggarwal Prestige Mall, Road No. 44, Near M2K Cinema. Pitampura, Delhi-110034 | Ph.: (91-11) 47527700 | Fax: 011-47527777 E-mail: accounts@neerajpaper.com | Website: www.neerajpaper.com

SCRIP CODE: 539409

28.08.2024

BSE Limited PItowers Dalal Street. Mumbai-400001

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement regarding Notice of 29th Annual General Meeting Ref: Reg 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015 and in compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, 2022, and General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022, and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and Circular No SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023, please find enclosed the newspaper advertisement regarding notice of convening 29th Annual General Meeting through Video conferencing /Other Audio Visual Means will be held on Friday, 27th September, 2024 at 11:30 A.M. published in the newspaper - "Financial Express" and "Jansatta" both dated 28th August, 2024.

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully'

For Neeraj Paper Marketing Limited

Deepa Kumari

(Company Secretary & Compliance Officer) 218 - 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi - 110034

Ecl. as above

Mumbai Office: F-38, Nand Dham Udyog Premises Co-Op. Society Ltd.Marol Maroshi Road, Marol, Andheri (East) Mumbai - 400059 | Phone : 022-29201746

Branch Office: 4 Km, Bhopa Road, Behind Petrol Pump, Muzaffarnagar - 251002 (UP)



कॉल कर सकते हैं।

दिनांक 27-08-2024

स्थान : दिल्सी

Corrigendum to the Public Announcement and Letter of Offer, for the attention of the public shareholders of



DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Identity Number: L24219HR1985PLC122802 Registered Office & Correspondence Address: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram - 122 002, Haryana, India Tel: +91 124 434 5000 | Website: www.dhanuka.com | Email: investors@dhanuka.com Contact Person: Jitin Sadana, Company Secretary and Compliance Officer

This Corrigendum should be read in continuation of and in conjunction with the Public Announcement and the Letter of Offer, unless otherwise specified. Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the Public Announcement and the Letter of Offer, unless otherwise defined.

The Equity Shareholders / Beneficial Owners of the equity shares of Dhanuka Agritech Limited are requested to note the amendments with respect to and in connection with the Public Announcement published on August 06, 2024 and the Letter of Offer dated August 20, 2024 as sent to the shareholders as under:

Annexure A of Statutory Auditor's report dated August 02, 2024 (UDIN: 24528799BKDIEC8259) in respect of proposed buy back of equity shares by Dhanuka Agritech Limited (the "Company") as per Clause (xi) of Schedule I to the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "Buy Back Regulations") in the Public Announcement

and on Page 45-46 of the Letter of Offer shall be read as follows:

Statement of permissible capital payment towards buy back of equity shares in accordance with section 68 of the Act and the Buy Back Regulations based on the audited standalone and consolidated financial statements as at and for the year ended March 31, 2024 prepared in accordance with Indian Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with the relevant rules issued thereunder:

Particulars	Standalone (₹ in lakhs)	Consolidated (₹ in lakhs)
Paid up equity share capital as on March 31, 2024 (4,55,78,324 equity shares of face value ₹ 2 each)	911.57	911.57
Free reserves as on March 31, 2024*		
- Retained Earnings	1,24,491,72	1,24,490.72
 Less: Adjustments as per definition of free reserves as per section 2(43) of the Act (Net of Tax) 	(961.62)	(961.62)
Total paid up capital and free reserves	1,24,441.67	1,24,440.67
Permissible capital payment in accordance with section 68(2)(b) of the Act (25% of the total paid-up Equity Share capital and free reserves)	31,110.42	31,110.17
10% of the total paid up equity share capital and free reserves, if the buyback is carried through tender offer route (in accordance with the Chapter III of the Buyback Regulations and proviso to Section 68(2)(b) of the Act)	12,444.17	12,444.07
Maximum amount permitted by Board Resolution dated August 02, 2024 approving the Buyback, based on the audited financial statements for the year ended March 31, 2024		
*Free reserves as defined in Section 2(43) of the Act read along with Explanation II p	rovided in Section	68 of the Act.

amended.

All other terms and conditions of Public Announcement and Letter of Offer remain unchanged. The Board of Directors of the Company accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to the Public Announcement and Letter of Offer confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of

Dhanuka Agritech Limited

Rahul Dhanuka Mahendra Kumar Dhanuka Managing Director Chairman (DIN: 00628039) (DIN: 00150140)

Sd/-Jitin Sadana Company Secretary and Compliance Officer (FCS-7612)

Place: Gurugram Dated: August 27, 2024

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document announcement)



INVENTURE GROWTH AND SECURITIES LIMITED Corporate Identification Number: L65990MH1995PLC089838

Inventure Growth and Securities Limited was originally incorporated on June 22, 1995, as a Public limited company, under the name and style 'Inventure Growth and Securities Limited' under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, Mumbai. We received Certificate of Commencement of Business dated June 22, 1995 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. The Company made a maiden public offer of its Equity Capital in July 2011. The Equity capital of the Company is listed on BSE and NSE in India.

Registered Office: 201, 2nd Floor, Viraj Tower, Near Landmark, Western Express Highway, Andheri - East, Mumbai - 400069, Maharashtra, India Tel: +91 - 22-71148500/600; Website: www.inventuregrowth.com; E-mail: cs@inventuregrowth.com

Contact Person: Ms. Shikha Ashok Mishra, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR. KANJI BACHUBHAI RITA

ISSUE OF UP TO 21,00,00,000-EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 2.33/-PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 1.33 PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹ 4893.00 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF 1 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 4 FULLY PAID UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 05TH JULY, 2024. THE ISSUE PRICE IS 2.33TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Inventure Growth and Securities Limited wishes to thank all its shareholders and investors for the response to the Issue which opened for subscription on MONDAY, JULY 15, 2024 and closed on TUESDAY, AUGUST 13, 2024 with the last date for on market renunciation of Rights Entitlements being WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024. Out of the total 9,737 Applications for 24,47,13,775 Rights Equity Shares, 884 Applications for 51,05,719 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received were 8,853 for 23,96,08,056 Rights Equity Shares, which was 114.10 % of the Rights Equity Shares Allotted under the Issue. The Rights issue was subscribed to the extent of 114.10% after

The Basis of Allotment was finalized on Tuesday, August 20, 2024 by the Company in consultation with the Registrar to the Issue and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on August 21, 2024, took on record the Basis of Allotment so approved, and approved the allotment of 21,00,00,000 Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. We hereby confirm that all the valid Applications have been considered for Allotment.

1. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

Cotonom	Application	s Received	Equity Shares Applied for Equity Shares al			quity Shares allo	otted	
Category	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Non Renouncees	9497	97.54%	132163634	307941267.22	54.01%	127057915	296044941.95	60.50%
Renouncees	240	2.46%	112550141	262241828.53	45.99%	82942085	193255058.05	39.50%
Total	9737	100.00%	244713775	570183095.75	100.00%	210000000	489300000.00	100.00%
2 Summary of Allotment is as under:								

2. Summary of Another is as under.					
Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received	No. of Equity Shares accepted and Allotted against Entitlement (A)	No. of Equity Shares accepted and Allotted against Additional applied (B)	Total Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	Number	Number	Number	
Non Renouncees	8673	77005527	50052388	127057915	
Renouncees	240	3414248	79527837	82942085	
Total	8913	80419775	129580225	210000000	

Intimations for Allotment/refund/rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors who have provided their email address, was sent on their email address on or about August 26, 2024 and Investors who have not provided their email address, is being physically dispatched to their Indian address provided by them, is being completed on or about August 27, 2024. The instructions to SCSBs for unblocking funds in case of ASBA Applications were given on August 20, 2024. The Listing application was filed with BSE and NSE on August 26, 2024. The credit in respect of allotment of Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialised form in NSDL and CDSL, as applicable is completed on or about

August 27, 2024. For further details, see "Terms of the Issue" on page 153 of the Letter of Offer. The trading in the Rights Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission, applications for the same are being made, and shall be traded under same ISIN INE878H01024 as the existing Equity Shares of the Company. The trading is expected to commence on or about Friday, August 30, 2024. In accordance with SEBI circular dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlement will be sent to NSDL and CDSL on receipt of listing permission from BSE and NSE. INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of

offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE. DISCLAIMER CLAUSE OF NSE It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or

offer for the full text of the Disclaimer clause of the NSE. Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer dated June 25, 2024 filed with the BSE. NSE and the Securities and Exchange Board of India.

approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of

Registrar to the Issue	Company Secretary and Compliance Officer
LINKIntime	INVENTURE
Link Intime India Private Limited	Shikha Ashok Mishra
C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083,	201, 2nd Floor, Viraj Tower, Near Landmark, Western Express Highway
Maharashtra, India.	Andheri - East, Mumbai - 400069, India
Tel No: + 91 810 811 4949;	E-mail: cs@inventuregrowth.com
Email: inventure.rights2023@linkintime.co.in	Tel : +91 - 22-71148500/600
Website: www.linkintime.co.in;	Website: www.inventuregrowth.com
SEBI Registration Number: INR000004058	
Contact Person: Shanti Gopalkrishnan	

Investors may contact the Registrar to the issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA.

THE LEVEL OF SUBSCRPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

Date : August 28, 2024 Place : Mumbai

For Inventure Growth & Securities Limited

Mr. Kanji Bachubhai Rita **Executive Director-Chairperson-MD**

Disclaimer:

Inventure Growth and Securities Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer (LOF) with the SEBI, BSE and NSE. The LOF shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; the website of NSE at www.nseindia.com and the website of the Company at www.inventuregrowth.com. Investors should note that investment in equity shares involve a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 17 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States.

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ-11, नई दिल्ली के समझ

फॉर्म नं. सीएए. 2 (धारा 230(3) और नियम ६ और 7 के अनुसरण में गंपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)-54 / एनंडी / 2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और अन्य लाग् प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझौत व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में

निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में ब्लू जे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड (डिमर्ज्ड कंपनी / आवेदक कंपनी-1)

स्ट्राइड फिनट्टी प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी-1/आवेदक कंपनी-2) स्ट्राइड वन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी-2/आवेदक कंपनी-3)

उनके संबंधित शेयरधारक एवं लेनदार संक्षिप्तता के लिए, आवेदक कंपनी-1, आवेदक शंपनी-2 और आवेदक कंपनी-3 इसके बाद सामृडिक रूप से "आवेदक कंपनी" के रूप में संदर्भित)

पैसर्स स्ट्राइड वन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ('कंपनी') के असुरिस्त लेनदारों की बैठक की सुचना का विज्ञापन तदद्वारा सुचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ-2 नई दिल्ली ("अधिकरण") ने अपने आदेश दिनांक 23 अगस्त 2024 ("आदेश") व माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की जारा 230 से 232 के प्रावधानों के साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आवेदक कंपनियों और उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बीच व्यवस्था की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विचार करने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना संसोधन उसे अनुमोदित करने के लिए कंपनी के असुरिक्षत नदारों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। उपरोक्त कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आगे तदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के असुरिक्षत

मदारो की एक बैठक शनिवार, 28 सितम्बर, 2024 को दोपहर : 12.00 बजे ब्लॉक ३ए, मृतल, बीएलएफ क्रमरिट पार्क, डीएलएफ सिटी, फेर्ज²3, एमजी रॉड, पुरुग्राम, हरियाणा–122002 में आयोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के असुरिक्षत लेनदारों से निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने एवं वीट देने का अनुरोध किया जाता है। माननीय अधिकरण ने उपरोक्त कथित बैठक के लिए

माननीय न्यायाधीश श्री सुनील गौर, पूर्व जज दिल्ली उच्च न्यायालय को अध्यक्ष, श्री अगिले कुमार मित्तल को वैकल्पिक अध्यक्ष एवं सुश्री मनमीत कौर सरीन को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त कथित बैठक में अनुमोदित की जाती है तो यह तननीय अधिकरण के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन

उपरोक्त बैठक के स्पष्टीकरण विवरण और उसके अन्य प्रपेक्षित अनुलग्नकों के साथ सुधना दिनांक 26.08.2024 को ई-मेल के माध्यम से 05 फरवरी 2024, (कट-ऑफ) तिथि के रूप में) तक कंपनी के असुरिधत लेनदार कंपनी के असुरिक्षत लेनदारों को भेज दी गई हैं।

इसके अलावा, असुरिक्षत लेनदारों जिनके नाम कट-ऑफ तेथि अर्थात 05 फरवरी 2024 को कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज हैं केवल वे ही उपरोक्त बैठक में भाग लेने और वेट देने के हकदार होंगे। असुरिक्षत लेनदारों के वोटिंग अधिकार 05 फरवरी 2024 की कंपनी की बहियों में दर्ज मूल्य के अनुपात में होंगे।

कंपनी के अस्रिक्षत लेनदारों जो उपरोक्त बैठक में माग लेने और वोट देने के हकदार हैं, वे व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से वोट दे सकते हैं बशर्त कि निर्धारित फॉर्म / प्राधिकार पत्र में सभी प्रॉक्सी फोंमें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ई13 / 29, प्रधम तल, हर्ष मदन, कर्नोट प्लेस, नई देल्ली-110001 पर उपरोक्त बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा किए जाएं। प्रॉक्सी कॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपरोक्त बैठक बुलाने की सूचना की प्रति अधिनियम की गरा 102 के साथ पठित भारा 230 से 232 के तहत थाख्यात्मक विवरण और उसके अन्य अपेक्षित प्रनुलम्नकों के साथ कंपनी के पंजीकत कार्यालय से

शल्क प्राप्त की जा सकती है। परोक्त बैठक के संबंध में किसी भी प्रश्न / शिकायत मामले में संबंधित असरिक्षत लेनदार कंपनी के नेदेशक श्री इस्हीत गर्बी से ई-मेल compliance@strideone.in

पर संपर्क कर सकते हैं।

हस्ता./-इशप्रीत गांधी देनांक : 28.08.2024 निदेशक दीआईएन : 08319385

माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, पीठ—ो।, नई दिल्ली के समक्ष

(धारा 230(3) और नियम 6 और 7 के अनुसरण में) रुपनी आवेदन संख्या सीए(सीएए)−54 / एनंडी / 2024 कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (समझौता व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के मामले में

निम्नलिखित के बीच व्यवस्था की योजना के मामले में ब्लू जे फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड (डिमज्ड कंपनी / आवेदक कंपनी-1)

स्ट्राइड फिनट्री प्राइवेट लिमिटेड (परिणामी कंपनी-1/अविदक कंपनी-2) स्टाइड वन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

(परिणामी कंपनी-2/आवेदक कंपनी-3)

उनके संबंधित शेयनधारक एवं लेनदार रंक्षिपाता के लिए, आवेदक कंपनी-1, आवेदव पनी-2 और आवेदक कंपनी-3 इसके बाद सामृहिक रूप से 'आवेदक कंपनी' के रूप में संदर्भित मैसर्स स्टाइड पिनट्री प्राइवेट लिमिटेड ('वांपनी') के सीरीज ए2 अनिवार्यत : कंवर्टिबल प्रीफरेंस ('सीरीज ए2 तीसीपीएस") शेयरपारकों की बैठक की सूचना का विज्ञापन दिद्वारा सचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्री त्मनी विधि अधिकरण, पीठ-2 नई दिल्ली ('अधिकरण अपने आदेश दिनांक 23 अगस्त 2024 ('आदेश') ग्रह्मम से कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) ारा 230 से 232 के प्रावधानों के लाथ पठित उसव ाहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आवेदक कंपनिय तौर उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के बी वस्था की प्रस्तावित योजना ("योजना") पर विधार न्टने और यदि जरूरी हुआ तो संशोधन या बिना शोधन उसे अनुमोदित करने के लिए कंपनी के सीरीज

(2 सीसीपीएस घारकों की एक बैठक बुलाने का निर्देश

परोक्त कथित आदेश एवं निर्देश के अनुसरण में आ

दद्वारा सुचित किया जाता है कि कर्पेनी के सीरीज सीसीपीएस धारकों की एक बैठक शनिवार, 28 सेतम्बर, 2024 को प्रातः 11.00 बजे ब्लॉक 3ए पूतल, डीएलएफ कापौरेट पार्क, डीएलएफ सिटी जि... १ मजी रोड, गुरुग्राम, हरियाणा... 122002 मे ायोजित की जाएगी जिसमें कंपनी के सीरीज ए2 पीसीपीएस घारकों से निर्धारित समय एवं स्थान प परिथत होने एवं वोट देने का अनुरोध किया जाता है ाननीय अधिकरण ने उपरोक्त कथित बैठक के लि ननीय न्यायाधीश श्री सुनील गौर, पूर्व जज दिल्लं व्य न्यायालय को आध्यक्ष, श्री अनिले कुमार मित्तल ो वैकल्पिक अध्यक्ष एवं सुन्नी मनमीत कौँर सरीन को वीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। योजना, यदि उपरोक्त कथित बैठक में अनुमोदित की जाती है तो यह माननीय अधिकरण के अनुयती अनुमोदन के अधीन

उपरोक्त बैठक के स्पष्टीकरण विवरण और उसके अन्य पेकित अनुसम्मकों के साथ सचना दिनांक 26.08 2024 को ई-मेल के माध्यम से 20 मई 2024 (कट-ऑफ तिथि के रूप में) तक कंपनी के सीरीज ए2 सीसीपीएस धारक कंपनी के सीरीज ए2 सीसीपीएस धारकों क

इसके अलावा, सीरीज ए३ सीसीपीएस पारक जिनके म कट--ऑपा तिथि अर्थात् 20 मई 2024 को कंपनी है रिकॉर्ड में वर्ज हैं केवल वे ही उपरोक्त बैठक में भाग ने और बोट देने के हकदार होंगे। सीरीज ए2 रीसीपीएस धारकों के वोटिंग अधिकार 20 मई 2024 को कंपनी की बहियों में दर्ज सीरीज ए2 सीसीपीएस मृत्य के अनुपात में होंगे।

कंपनी के सीरजी ए2 सीसीपीएस बारक जो उपरोत्त बैठक में भाग लेने और बोट देने के हकदार हैं, वे पक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या अधिकृत प्रतिनि हे माध्यम से वोट दे सकते हैं बशर्ते कि निर्धारित होंगे / प्राधिकार पत्र में सभी प्रॉक्सी फोंर्म कंपनी व जिक्ति कार्यालय ई13 / 29, प्रथम तल, हर्ष भवन, नॉर्ट प्लेस, नई दिल्ली—110001 पर उपरोक्त बैटव गुरू होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व जमा किए ए । प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

परोक्त बैठक बुलाने की सूचना की प्रति अधिनियम के गरा 102 के सीथ पठित धारा 230 से 232 के तहत पारपात्मक विवरण और उसके अन्य अपेक्षित नम्नकों के साथ कंपनी के पंजीकत शिल्क प्राप्त की जा सकती है।

परोक्त बैतक के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में संबंधित सीरीज ए2 सीसीपीएस धारक कंपनी के गिदेशक श्री इशब्रीत गांधी से ई–मेल compliance@strideone in पर संपर्क कर सकते हैं। इशप्रीत गांधी

दिनांक : 28.08.2024 डीआईएन: 08319385

स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड CIN: L27109PB1973PLC003232 पंजी कार्यालयः गांव-सोमलहेडी/लेहली, डाकखाना दप्पर, तहसील डेराबस्सी,

जिला मोहाली (पं.)-140506. टेलीफोन: +91-172-2793112. फैक्स: +91-172-2794834 ईमेलः ssl ssg@glide.net.in, वेबसाइटः www.ssilindia.net

51वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग जानकारी

तथा किताब बंदी की सुचना

एतदुद्वारा सुचना दी जाती है कि:-

कंपनी की 51वीं वार्षिक सामान्य बैठक (51वीं एजीएम) सूचना दिनांक 13.08.2024 में तय अनसार व्यापार को करने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गांव सोमलहेडी/लेहली, डाकखाना दप्पर, तहसील डेराबस्सी, जिला मोहाली (पंजाब) में सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित होना अधिसचित है।

51वीं एजीएम (सूचना) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक विधि में पंजीकृत पतों पर भेज दी गई हैं जिनकी ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट्स के साथ पंजीकृत है। भेजने का कार्य 23 अगस्त, 2024 को पूरा कर लिया गया है और जो कंपनी की वेबसाइट www.ssilindia.net पर भी उपलब्ध है। कट ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2024 को भौतिक विधि या डिमैटरिलाइज्ड रूप में शेयरधारक सदस्य

सूचना में तय किए सामान्य और विशेष व्यापार पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के इलैक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने वोट इलैक्टॉनिकली डाल सकते हैं। कोई व्यक्ति जो बैठक की सुचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बना है तथा कट ऑफ तिथि

अर्थात 23 सितंबर, 2024 को शेयरधारक है वो रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम सुचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का अनुपालन कर सकते हैं। यदि सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से पंजीकृत है वो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वर्तमान यूजर आइडी तथा पासवर्ड का

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है परंतु एजीएम में दोबारा वोट डालने की अनुमित नहीं दी जाएगी। दोनों विधियों द्वारा वोट डाले जाने की स्थिति में, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा डाले गए वोट को अंतिम विचारा जाएगा।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि (क) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर, 2024 को प्रातः 9.00 बजे शुरू होगी तथा 29 सितंबर, 2024 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। (ख) दिनांक 29 सितंबर, 2024 को सायं 5.00 बजे के बाद इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग की अनुमित नहीं दी जाएगी। (ग) इलैक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ की स्थिति में सदस्य फ्रीक्वेटली आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफएक्यू") को देख सकते हैं और www.evotingindia.com के डाउनलोड सैक्शन में उपलब्ध ई-वोटिंग मैन्यूवल को देखें या टोल फ्री नं. 1800225533 पर संपर्क करें या श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, सीडीएसएल से ईमेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com टेली. 022-23058542/43 पर संपर्क करें।

कंपनीज़ एक्ट, 2013 तथा इसके अधीन लागू नियमों की धारा 91 के अनुवर्ती, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर बुक वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 24 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 (दोनों दिनों को मिलाकर) बंद रहेगी।

कृते स्टील स्ट्रिप्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड

दिनांक: 27.08.2024 स्थानः चंडीगढ़

प्रबंध निदेशक. (डीआईएन-00030956)

आरसी इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यांसयः 7वां, के.एम बरवासा रोड, तसवंडी राना, हिसार-125001 (हरियाणा) ई—मेस आईकी: arceeind@rediffmail.com फोन नंद्र: 98120-40111, 98120-40222 सीआईएन: L29120HR1992PLC031681 32वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, बुक क्लोजर और ई-मतवान

एतदद्वारा सुधित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, 7वें के एम. बरवाला रोड, तलवंडी राना, हिसार (हरियाणा) में 32वीं एजीएम की सचना में निर्धारित सामान्य व्यवसाय के निस्तारण हेत् आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की स्चना और वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट मेजने की प्रक्रिया पूरी की ज चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां चन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईठी कंपनी/ तियाँजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं और मौतिक प्रतियां उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों www.arcseindustries.in और http://evoting.nsd.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को रिमोट ई-मतदान से संबंधित जानकारी के साध-साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20. के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुधियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाँ (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज विधीजिटरी लिमिटेव (एनएसढीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

रिमोट ई-मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः 27 सितंबर, 2024 (प्रात: 9:00 बजे) रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय: 29 सितंबर, 2024 (साथं 5.00 बजे)

रिगोट ई-मतदान की जनुमति 29 सितंबर, 2024 (साथ 5.00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2024 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिगोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है। वह व्यक्ति जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और

कट-ऑफ विधि के अनुसार वह शेयरधारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईटी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसढीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिगोट ई-बोटिंग के गाध्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सर्विधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट

ई--मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते है लेकिन बैठक

में अपने मत का पुनः चपयोग नहीं कर सकेंचे। रिमोट ई-मतदान से संबंधित किसी पछलांछ हेत. सदस्य/लामार्थी स्वामी निम्नलिखित पर्ते पर

संपर्क कर सकते हैं : श्री नरेंद्र देव, प्रबंधक नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोजर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022 2499 4545 या टोल फ्री नं. 1800-222-990; ई-मेल: eveting@nsdl.co.in । सदस्यगण कंपनी को ई-मेल:

aroseind@redifinal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं। कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम के उद्देश्य के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 से सोमवार, 30 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिवस शामिल) बद रहेंगे।

कृते वारसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता/-(श्रुवि गुप्ता) पूर्णकातिक निदेशक डीबाई एन-01742368

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड CIN: L74899DL1995PLC066194 पंजीकृत कार्यालय—218—222, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर, रोड नंबर 44 के किनारे, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 ईमेल आईडी: cs@neerajpaper.com ; वेबसाइट : www.neerajpaper.com फोन रू +91 11 47527700, फैक्स — +91 11 47527777

वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 29वीं वार्षिक साधारण बैठक, शूक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को पूर्वा. 11.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग /अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल, 2020, सर्कुलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 20 / 2020 दिनांकित 5 मई, 2020 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020, आगे जनरल सर्कूलर नंबर 02 / 2022 दिनांकित 5 मई, 2022 तथा जनरल सर्कूलर नंबर 11 / 2022 दिनांकित 28 दिसम्बर, 2022 और सर्कूलर नंबर 09 / 2023 दिनांकित 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर/पी/2022/ 62 दिनांक 13 मई, 2022, और परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/ पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 द्वारा विस्तार के अनुपालन में कम्पनियों को एजीएम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से, किसी एक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना करने की अनुमति प्रदान की गई है।

29वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट शेयरधारकों को पृथकतः केवल ई—मेल द्वारा भेजी जाएगी, यदि उसका ई-मेल पता डिपॉजिटरी / रजिस्टार एवं ट्रांसफर एजेन्ट के पास पंजीकत हैं। एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी सर्कुलर्स के अनुपालन में एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 29वीं एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट https://www.neerajpaper.com/notices पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के शेयर भौतिक रूप में हैं और अपना ई-मेल पता तथा केवाईसी कम्पनी में अद्यतन नहीं करवाया है उनसे अनुरोध है कि अपना केवाईसी अद्यतन करवाने के लिए कम्पनी तथा आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हस्ताक्षरित प्रपत्रों सहित कम्पनी को cs@neerajpaper.com पर अथवा रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. को beetalrta@gmail.com पर लिखें। जिन सदस्यों के शेयर अभौतिक रूप में हैं उनसे

अनुरोध है कि अपना ई–मेल पता संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास पंजीकृत/अद्यतन करवाएं। भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के लिए तथा जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता कम्पनी में अद्यतन

नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम में वोटिंग की विधि एजीएम की सूचना में दी गई है। ई—वोटिंग के संबंध में किसी पूछताछ / शिकायत की स्थिति में, आप श्री पुनीत मित्तल, जनरल मैनेजर, बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. से beetalrta@gmail.com अथवा फोन नंबर 011 29961281 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा श्री राकेश दाल्वी. सीनि. मैनेजर (सीडीएसएल) सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड. ए विंग. 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एन एन जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई–400013 से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई–मेल भेज सकते हैं अथवा 022–23058542/43 पर

बोर्ड के आदेशानुसार वास्ते नीरज पेपर मार्केटिंग लिपिटंड (कंपनी स्विव एवं अनुपालन अधिकारी

आर्कोटेक लिमिटेड

CIN: L34300HR1981PLC012151 पंजी. कार्यालय : 181, सेक्टर-3, औद्योगिक विकास केंद्र, बावल, जिला-रेवाडी, हरियाणा 123501

43वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

वेबसाइट : www.arcotech.in, ईमेल: contact@arcotech.in दूरभाष: 0128-4264160

तद्वारा सुधना दी जाती है कि परिपन्न से 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 09 / 2023 और 7 अक्टूबर 2023 के साथ पठित कंप-अधिनियम 2013 के लागू प्रायधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमों और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाए वेनियम, 2015 मंत्रालय और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (एमसीए परिपत्र(ओ)) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र र SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 11 जुलाई 2023 के अनुपाल में एजीएम की सूबना में निर्धारित यवसाय को लेन-देन करने के लिए आर्कोटेक लिमिटेड ("कंपनी") की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियों कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुञल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को पूर्वाहन 11:30 बजे आयोजित की

जाएगी । जिसमें सदस्यों की एक सामान्य स्थान पर मौतिक उपस्थिति नहीं होगी । सुधना और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों को भेज दी गई है, जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कंपनी के पास पंजीकृत है। वर्ष 2023-24 के लिए एजीएम की सुवना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 27 अगस्त, 2024 को पुरा कर लिया गया है। विलीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपीट और एजीएम की सूचना कंपनी की येबसाइट www.arcotech.in, और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com, और बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। वार्षिक रिपोट की मौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।

आगे सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत बनाए गए नियमों और लिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के | लिए रिकॉर्ड दिनांक बुधवार, 11 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार नियम 20 कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 (संशोधित) के साथ पठित, कंपनी शेयरवारकों को एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दैरान ई-वोटिंग प्रदान कर रही है ताकि वे एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं जिसे सदस्यों

को ईमेल किया जा रहा है शेयरघारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी ने सीढीएसएल की सेवाएं ली हैं। इसके अलावा, एजीएम की सचना, जिसमें युजर आईडी और पासवर्ड के बारे में विवरण और ई—वोटिंग के निर्देश पहले ही सदस्यों को मेजे जा चुके हैं। ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म रविवार, 15 शितंबर, 2024 को सुबह नौ बजे से मतदान के लिए खुलेगा और मंगलवार, 13 रीतंबर 2024 को शाम पांच बजे बंद होगा। कंपनी के वे शेयरधारक जी. कट—ऑफ विनांक यानी बधवार. 11 सितंबर, 2024 को मीतिक रूप में या अमीतिक रूप में शेयरधारण होगें। वे एजीएम होने वाले व्यवसाय के संबंध में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। उक्त तिथि एवं समय के बाद ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के होयर प्राप्त करता है और एजीएम सचना के प्रेशण के बाद कंपनी का सदस्य बेंन जाता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है. वह mdpldc@yahoo.com या helpdesk.evoting@cdslindia.com या सीडीएसएल पर 022- 23058738 या 022-23058542-43 संपर्क करके अपना युजर आईढी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। सदस्य, जो एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट बालते हैं, वे बीडियो कांफ्रेंसिंग (बीसी) / अन्य ऑडियो-बिजुअल साधनों (ओएवीएम) के मध्यम से बैठक में भाग हं सकते हैं. लेकिन वे एजीएम में अपना वोट फिर से बालने के हकदार नहीं होंगें। सवना में प्रस्तावित प्रस्ताव के लिए ई–वोटिंग के लिए नींगिन केडेंशियल प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की प्रक्रिया, जिनके ई–मेल पते डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं। सूचना मे

भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया फोलियों नं.. शेयरधारक का नाम. शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) आधार (आधार की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण ईमेल हारा आरटीए को mdpldc@yahoo.com या कंपनी को secretarial@arcotech.in. पर प्रदान करें। . डीमेट शेयरधारकों के लिए- कृपया अपनी इंमेल आईडी और मोबाइल नं, अपडेट करें अपने संबंधित दिपोंजिटरी पार्टिसिपेंट (ढीपी)

व्यक्तिगत डीमेट शेयरधारकों के लिए- कृपया अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नं. अपडेट करें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ जो ई-वोटिंग और ढिपोंजिटरी के माध्यम से वर्यअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है। –वोटिंग से जुड़े किसी भी प्रश्न या शिकायत को कंपनी को इंमेल आईडी secretarial@arcotech.in, पर संबोधित किया जा

तकता है। मैसर्स सौरम अग्रवाल एंड कंपनी, कंपनी सबिव, नई दिल्ली को एजीएम में रिमोर्ट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग प्रकिया की

निष्यक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

आर्कोटेक लिमिटेड के लिए E44間4/-(निधि जीन स्थानः नई दिल्ली तिथिः २७ अगस्त, २०२४ कंपनी सचिव



मेगास्टार फूड्स लिमिटेड

सीआईएन: L15311CH2011PLC033393 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 807, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II चंडीगढ़ 160102 फोन: ++91 172 2653807,5005024

वर्क्स : कुरली-रोपड रोड, ग्राम सोलखियां-140108 जिला रूपनगर, पंजाब टेलीफोन:+91 1881 240403-240406 वेबसाइट : www.megastarfoods.com; ईमेल: cs@megastarfoods.com

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 13वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी एतदद्वारा सचना दी जाती है कि कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए'), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड

('सेबी') द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को करने के लिए मेगास्टार फूड्स लिमिटेड ('कंपनी') की 13वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 को सबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से, आयोजित की जानी है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना का हिस्सा बनने वाले नोट्स में दिए गए हैं।

एमसीए द्वारा जारी अन्य पिछले परिपत्रों के साथ पठित 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 (सामुहिक रूप

से 'एमसीए परिपत्र' संदर्भित) और सेबी द्वारा इस संबंध में जारी पूर्व परिपत्रों सहित सेबी द्वारा जारी दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 के एसईबीएल/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 (सामूहिक रूप से 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुसरण में, कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। तदनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। उक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस केवल

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अपने उन सभी सदस्यों को भेजे हैं, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट के साथ नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 27 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। सदस्य ध्यान दें कि एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सचना कंपनी की वेबसाइट www.megastarfoods.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 44, समय-समय पर संशोधित, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक-2 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं, ताकि कंपनी के सदस्य इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के

अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। एजीएम की रान उपलब्ध होगी

ा त	ाराख स पहल रिमाट इ-वाटिंग सुविधा निम्नालाख -	त मतदान अवाध (दाना दिन साम्मालत) क दारा
	रिमोट ई-वोटिंग की प्रारंभिक तिथि	मंगलवार, 17 सितम्बर, 2024 को 9:00 बजे पूर्वा.
	रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति तिथि	गुरुवार, 19 सितम्बर, 2024 को 5:00 बजे अप.

रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को उपरोक्त तिथि और समय के बाद अनुमित नहीं दी जाएगी और उसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तारीख यानी शक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को दर्ज है, केवल एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तारीख तक सदस्य नहीं है. उसे एजीएम नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तारीख को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर, रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा के लिए, जैसा भी मामला हो, लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकता है।

जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है और जो समय-समय पर कंपनी द्वारा नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म आईएसआर-1 जमा करके अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत करवा सकते हैं। हालांकि, डीमैट मोड में रखे गए शेयरों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी को लिखें।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग में Frequently Asked Questions (FAQs) तथा e-voting user manual पुस्तिका देख सकते हैं या 180021 09911 पर कॉल कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सीडीएस से संपर्क

अधिनियम की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और एलओडीआर विनियमों के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और स्थानांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी। कंपनी ने श्री अजय के. अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (एम. नं. 2191 सी.पी. नं. 993) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग सहित ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। समेकित स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ एजीएम के ई-वोटिंग परिणाम वैधानिक समयसीमा के अनुसार घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट यानी www.megastarfoods.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट

मेगास्टार फुड्स लिमिटेड के लिए

दीपाली छाबड़ा

कंपनी सचिव

स्थानः चंडीगढ़ दिनांक: 27.08.2024

www.evotingindia.com पर भी डाले जाएंगे।

www.readwhere.com

स्थान : हिसार (हरियाणा)

दिनांकः 27 अवस्त, 2024

FINANCIAL EXPRESS

Details of

Date

Northern Region (Regional Director), New Delhi In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of RD Steelfab Private Limited having its registered office at '10A/1, First Floor Shaktill Nagar, New Delhi, Delhi, India, 1100071.

.Applicant Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary general meeting held on 21" June 2024 to enable the company to change its Registered Office from "NCT of Delhi" to "State of Uttar Pradesh"

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 02"Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

'10A/1, First Floor Shakti Nagar, New Delhi, Delhi,

For RD Steelfab Private Limited Date: 28" August 2024 Place: New Delhi Director (DIN - 01787377)

Whilst care is taken prior to

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any

manner whatsoever.

Name of the

Hero

HERO FINCORP LIMITED CIN: U74899DL1991PLC046774 Regd Office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057 Phone: 011-4948 7150, | Fax: 011-4948 7197, 011-4948 7198

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF **SECURITY INTEREST ACT, 2002**

E-Mail: litigation@herofincorp.com | Website: www.herofincorp.com

Notice is hereby served on:

M/s. Sushil Spuntex Pvt. Ltd. (Borrower), having its registered offfice 4819 Gali No. 24, Mathur Lane, Ansari Road, Daryaganj, Delhi- 110002, also at 0 Gohana Road, Village Mehrana, Panipat, Haryana-132103 and also at 44/45, Gandhi Mandi, Panipat, Haryana-132103. Mr. Sushil Garg (Co-Borrower), residing at 44/45, Gandhi Mandi, Panipat,

Harvana-132103 and also at 38, Kishor Garden, Near Police Chowki, Assandh road, Panipat, Haryana-132103. Mr. Deepak Garg (Co-Borrower), residing at 38, Kishor Garden, Police

Station, Assandh road, Panipat, Haryana-132103. Ms. Anita Gupta (Co-Borrower), residing at 38, Kishor Garden, Near Police

Station, Assandh road, Panipat, Haryana-132103 also at 44/45, Gandhi Mandi, Panipat, Harvana-132103 Ms. Saloni (Co-Borrower/Mortgagor), residing at 38, Kishor Garden, Police

Station, Assandh road, Panipat, Haryana-132103 hereinafter referred to as "Borrowers")

The abovementioned Borrowers had entered into a Facility Agreement dated 22.08.2023 with M/s. Hero FinCorp Limited (hereinafter referred to as "HFCL" having its Registered Office at 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057, for availing a credit facility to the tune Rs.3,00,00,000/- (Rupees Three Crores Only) in the form of Loan Against Property from HFCL, by way of mortgage of Immovable property as listed below, in favour of HFCL:

Plot No.61, Measuring 580.83 Sq Yard i.e 10 Biswa 3-1/2 Biswansi being 407/3480 share of land measuring 4B7B comprised in Khasra no. 1462/1(2-17). 1462/2(0-6), 1463/1(1-1), 1463/2(03) Kitte 4 situated under T.P Scheme No.15, Aabadi Kishor Garden, Pati Insar, Tehsil and District Panipat. North: Plot No.60, West: Road 12' wide, South: Plot No.62, East: Rajvaha

The above-mentioned Property shall hereinafter be referred to as "Secured Asset" The Secured Asset has been Mortgaged to HFCL as security/collateral so as to secure the due repayment of loan together with the interest and other charges. However, the Borrowers defaulted in due repayment of Loan alongwith interest and other charges. In this regard, Demand Notice u/s 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. (hereinafter referred to as "SARFAESI Act, 2002") dated 07.08.2024, was issued to the last known addresses available of the aforesaid Borrowers with HFCL but some of the Notices remain undelivered.

By way of this publication, HFCL hereby once again call upon the above-mentioned Borrowers to pay the entire outstanding due of Rs.3,06,81,079.24/- (Rupees Three Crores Six Lakhs Eighty One Thousand Seventy Nine and Twenty Four Paise Only) due as on 06.08.2024 within 60 days of the publication of this Notice, failing which HFCL shall take all necessary actions under all or any of the provisions of SARFAESI Act, 2002 against the Secured Asset including taking possession and sale of the Secured Asset of the Borrowers and any other action or relief as may be provided under SARFAESI Act, 2002.

Further, in pursuance to the provisions of Section 13(13) of SARFAESI Act, 2002, the Borrowers are hereby prohibited from selling/transferring or alienating either by way of sale/lease or deal with the aforesaid Secured Asset, in any manner, whatsoever, in contravention with the provisions of aforesaid Loan Agreements and/or SARFAESI Act, 2002.

The Public at large is also hereby informed that they should not deal, in any manner whatsoever, with the aforementioned Secured Asset as HFCL has the First and Exclusive Charge over the same.

PLACE: PANIPAT

SD/-, AUTHORIZED OFFICER DATE: 28.08.2024 HERO FINCORP LIMITED

Equitas Small Finance Bank Ltd

EQUITEDS (FORMERLY KNOWN AS EQUITAS FINANCE LTD)

Registered Office: No.769, Spencer Plaza, 4th Floor, Phase-II, Anna Salai, Chennai - 600002.

POSSESSION NOTICE (U/s. Rule 8 (1) - for immovable property) Whereas the undersigned being the Authorized Officer of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited, under the Securitisation and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with [Rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice calling upon the below mentioned Borrowers to repay the total outstanding amount mentioned in the notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice. Since the below mentioned Borrowers having failed to repay the below stated amount within the stipulated time, notice is hereby given to the below mentioned borrowers and the public in general that, the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security interest Enforcement Rules, 2002. The Borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the schedule mentioned properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of M/s. Equitas Small Finance Bank Limited and further interest and other charges thereon." The Borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets."

RS. Co-Borrower- MRS.ROSHINI MRS.ROSHINI Registration District of Pillukhera District Jind and mutation no.1105 dated 4-4-2019. North by: GALI, South by: ROAD, East. by: GALI, West by: PRO.SIYARAM, Measurement: 160 sq.yards. Situated at within the Sub-Registration District of Pillukhera and Registration District of JIND. All that pieces and parcels of non-agriculture property being Residential property having area measuring 1512.5 sq yards=ZK-10M which is comprised in khewet no.266, khatauni no.338 Murabba no.94, Killa no.16/1/2 which is bounded as East-P/o Rajbala (123'0"), West- Street 123', South- Agree. land of Krishan Kumar (107'6"), and North-P/o Government situated at VPO Burj Bhango, Tehsil & District Sirsa with all rights appurtenant thereto vide transfer deed no. 11858 registered at SRO Sirsa dated 17-11-2021, Mutation no. 2174 dated 9-12-2021 and vide and the years of 2017-18. North by: P/o Government (107'6"), South by: Agree. Land of Krishan Kumar (107'6"), East by: P/o Smt. Rajbala (123'0"), West by: Rasta (123'0"). Measurement: 1512.5 sq yards Situated at within the Sub-Registration District of Sirsa and Registration District of Sirsa. All that pieces and parcels of non-agriculture Property/Plot Measuring 5 marlas 3 sarsai i.e. 160 sq.yards situated at Village Beri Khera Tehsil Pillukhera District Jind bounded as under purchased vide transfer deed no.1698 dated 25-1-2019 which is 1/8th share out of khewat no.25, khatoni no.26 measuring 1 kanal 1 marla i.e. 2 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26, khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26, khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26, khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26, khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26, khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26, khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas 6	SR NO	Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Notice Date and Amount	Date of Possession
Branch: SIRSA L.No.ELPIBSRS0033391 Borrowers: MR. VISHNU BHAGWAN, Co-Borrower - MRS. SALOCHANA DEVI Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Branch: Journal of Kishan Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Branch: Journal of Kishan Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Branch: Journal of Kishan Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar C	1	Branch: JIND L.No.EMFIBJND0052086 Borrowers: MR.SUKHVINDER Co-Borrower -	sarsai i.e 160 sq.yards situated at Village Beri Khera Tehsil Pillukhera District Jind bounded as under purchased vide transfer deed no.1698 dated 25-1-2019 which is 1/8th share out of khewat no.25,khatoni no.26 measuring 1 kanal 1 marla i.e 2 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26,khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas i.e 2 marlas 6 sarsai total 5 marlas 3 sarsai as per jamabandi for the year 2017-2018 of village Beri khera Tehsil Pillukhera District Jind and mutation no.1105 dated 4-4-2019. North by: GALI, South by: ROAD, East. by: GALI, West by: PRO.SIYARAM, Measurement: 160 sq.yards. Situated at within the Sub-	& Rs.	22/08/2024
Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Babli DeviW/o. Mr/Mrs. Babli DeviW/o. Anand Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Babli DeviW/o. Anand Anand Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Babli DeviW/o. Anand Anand Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Babli DeviW/o. Anand Anand Branch: JIND L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Babli DeviW/o. Anand Branch: JIND Branch: Jind Bounded as under purchased vide transfer deed no.1698 dated 25-1-2019 which is deed no.26 measuring 1 kanal 1 marla i.e 2 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26,khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas i.e 2 marlas 6 sarsai total 5 marlas 3 sarsai as per jamabandi for the year 2017-2018 of village Beri khera Tehsil Pillukhera District Jind Branch: Jind Branch: J	2	L.No.ELPIBSRS0033391 Borrowers: MR. VISHNU BHAGWAN, Co-Borrower - MRS.	having area measuring 1512.5 sq yards=2K-10M which is comprised in khewet no.266, khatauni no.338 Murabba no.94, Killa no.16/1/2 which is bounded as East -P/o Rajbala (123'0"), West- Street 123' ,South- Agree. land of Krishan Kumar (107'6") and North- P/o Government situated at VPO Burj Bhango, Tehsil & District Sirsa with all rights appurtenant thereto vide transfer deed no. 11858 registered at SRO Sirsa dated 17-11-2021, Mutation πo. 2174 dated 9-12-2021 and vide jamaband for the years of 2017-18. North by: P/o Goverment (107'6"), South by: Agree. Land of Krishan Kumar (107'6"), East by: P/o Smt. Rajbala (123'0"), West by: Rasta (123'0"). Measurement: 1512.5 sq yards Situated at	15-05-2024 & Rs. 1294872/-	22/08/2024
Registration District of Pillukhera and Registration District of JIND.	3	L.No.SEIBJND0277567 Borrowers: Mr/Mrs. Anand Kumar Co-Borrowers: Mr/Mrs. Babli DeviW/o.	sarsai i.e 160 sq.yards situated at Village Beri Khera Tehsil Pillukhera District Jind bounded as under purchased vide transfer deed no.1698 dated 25-1-2019 which is 1/8th share out of khewat no.25,khatoni no.26 measuring 1 kanal 1 marla i.e 2 marlas 6 sarsai and 8/1695 share out of khewat no.26,khatoni no.27 measuring 28 kanal 5 marlas i.e 2 marlas 6 sarsai total 5 marlas 3 sarsai as per jamabandi for the year 2017-2018 of village Beri khera Tehsil Pillukhera District Jind and mutation no.1105 dated 4-4-2019. North by: GALI, South by: ROAD, East. by: GALI, West by: PRO.SIYARAM. Measurement: 160 sq.yards. Situated at within the Sub-	& Rs.569616/-	22/08/2024

Date - 28.08.2024. Place - Jind. Sirsa

Date: 27.08.2024

Place: Delhi

Authorized officer, Equitas Small Finance Bank Ltd

Demand

AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

(CIN: L99999DL1984PLC019052) Regd. Office: 217, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura,

New Delhi - 110034

Website: www.agarwalduplex.net; E-mail id: agarwalduplex1984@gmail.com Tel.: +91 11 47527700, Fax - +91 11 47527777

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Monday, 30th September 2024 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, and General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022, and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 and Circular No SEBI/ HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice.

Notice of the 40th AGM and Annual Report will only be sent to the shareholders individually through e-mail is his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 40°AGM is also available on the Company's website https://www.agarwalduplex.net/notices on the website of Stock Exchange www.msei.in and on the website of www.evotingindia.com.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses and KYC with the Company are requested to update their KYC by writing to the Company at agarwalduplex1984@gmail.com or company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services Private limited at beetalrta@gmail.com along with the copy of the signed Forms available on the Company and RTA website. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with the relevant Depository Participants.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

> By Order of the Board FOR AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED

> > (Renu Malik) Company Secretary & Compliance officer

TATA ELXSI LIMITED

Registered Office: ITPB Road, Whitefield, Bengaluru-560048 Corporate Identification No. (CIN): L8511OKA1989PLC009968 Phone + 91 8022979123 + 918028474, Email:- investors@tata elxsi.com

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] or the said securities / applicant(s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

Name[s] of holder[s]	Kind of Securities and face value	No of Securities		Distin Numb		
SUMAN KANTA	Rs. 10/-	500	Cert. Number	Start Dist No	End Dist No.	Total Shares
SHARMA	183204	23792821	23792920	100		
			183205	23792921	23793020	100
			B240985	31305311	31305610	300
Place: Delhi Date: 28.08.2024			[Name		er[s] / Appli KANTA SE	

PAN INDIA CORPORATION LIMITED

(CIN:- L72200DL1984PLC017510)

Regd. Off.- 711, 7th Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Email: srgltd@gmail.com, Website: http://www.panindiacorp.com Tel. No. 011-43656567 NOTICE TO THE MEMBERS FOR UPDATE OF E-MAIL ADDRESS AND OTHER INFORMATION

Pursuant to General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21 2021, 02/2022 and 09/2023 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13. 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and September25, 2023 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/ P/2021/11, SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/48 SEBI/HO/ CFD/CFD-PoD2/P/CIR/2023/167 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13,2022, January 05, 20238 dated October 7, 2023 respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), holding of the Annual General Meeting ('AGM') through VC/OAVM, without the physical presence of the Members, is permitted. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('the Listing Regulations'). MCA Circulars and SEBI Circulars, the upcoming 40th AGM of the Company will be held on Sunday, 22nd September, 2024 at 11:30 A.M. (IST) through VC/OAVM, Hence, Members can join and participate in the AGM through VC/OAVM facility only.

Pursuant to the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of 40th AGM along with the Annual Report for FY 2023-2024 will be sent through electronic mode only, to those Members whose E-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Fransfer Agent ("RTA") or with Depository Participant ("DP")/ Depository. The Company is also providing e-voting during the AGM and remote e-voting facility to all its Members similar to

If your email address is already registered with the Company/RTA or DP/Depository, Notice of AGM along with annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email address with the Company/RTA or DP/ Depository, please follow below instructions to register your email address for obtaining notice, annual report for FY 2023-2024 and login details for e-voting. Registration/updation of e-mail addresses& bank account details:

Holding

Send a request to RTA of the Company i.e. Nivis Corpserve LLP at 03 Shankar Vihar 2nd Floor Vikas Marg Delhi -110092 in duly filled Form No. ISR-1, which can be downloaded from the website of the Company at www.panindiacorp.com under Investor Relation tab, as well as RTA's website i.e. https://nivis.co.in/ under download tab. You can also send the Form No. ISR-1 with digital signature to RTA's email id info@nivis.co.in under copy marked to company at

Demat Please contact your DP and register your email address and bank account details Holding as per the process advised by DP.

The Company will provide its shareholders facility of remote e-voting through electronic voting

participating in the AGM. Details regarding the same will be provided in the Notice of the AGM and will also be made available on the Company's website viz. www.panindiacorp.com The Notice of AGM and Annual Report for FY 2023-2024 will also be available on Company's website www.panindiacorp.com and website of BSE Limited at www.bseindia.com Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

n case of any query, the Members may contact or write RTA at address & E-mail ID as mentioned above under copy marked to the Company.

For Pan India Corporation Limited

Place: New Delhi Date: 27.08.2024

Vijay Pal Shukla Managing Director

ARCEE INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar - 125 001 (Haryana) Email: arceeind@rediffmail.com; Tel.: 98120-40111, 98120-40222

CIN: L29120HR1992PLC031681 NOTICE OF 32ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 32ND Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Monday, 30th September 2024 at 9:00 a.m. at the registered office of the Company at 7th K.M. Barwala Road, Talwandi Rana, Hisar (Haryana) to transact the Ordinary Business as set out in the notice of the 32nd AGM. The Company has completed the dispatch of the Notice of AGM and the Annual Report for 2023-24. Electronic copies have been sent to all the members whose email ID are registered with the

Company/Depository Participants and physical copies have been sent to the members at their egistered address whose email ids are not registered with the Company/Depository Participants. This communication and the Notice along with the Annual Report for 2023-24 are available at the following websites www.arceeindustries.in and http://evoting.nsdl.com. The communication relating to remote e-voting, inter-alia, containing user ID and password have been dispatched to the As per Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to its nembers to exercise their right to vote by electronic means from a place other than the venue of the meeting ('remote e-voting'). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the authorized agency to provide remote e-voting facility. The details of the remote e-voting are as under:

- Date and time of commencement of remote e-voting: 27th September, 2024 (9:00 a.m.) Date and time of end of remote e-voting: 29th September, 2024 (5:00 p.m.)
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 29th September, 2024 (5:00 p.m.)
- A person, whose name appears in the register of members/ beneficial owners as on the cutoff date i.e., 23rd September, 2024 shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting
- A person, who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the meeting and holding shares as on the cut-off date, may obtain the user ID and password by following the detailed procedure as provided in the Notice of the meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the member is already registered with NSDL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting.
- A facility of voting through ballot paper shall also be made available at the AGM and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the meeting.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- In case of any queries/ grievances relating to remote e-voting, the members/ beneficial owners may contact at the following address:

Sh. Narendra Dev, Manager, National Securities Depository Limited, Trade: World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, Phone No. 022 2499 4545 or at Toll free no. 1800-222-990; e-mail- evoting@nsdl.co.in. Members may also write to the Company at arceeind@rediffmail.com or Company's registered office.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Fransfer Books of the Company will remain closed from Friday, 20th September, 2024 to Monday, 30th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Place: Hisar (Haryana)

Date: August 27, 2024

Date: 27.08.2224

Place: Delhi

For Arcee Industries Limited (Shruti Gupta) Whole Time Director DIN - 01742368

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED (CIN: L74899DL1995PLC066194)

Regd. Office: 218 – 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center. Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi – 110034, Email id: cs@neerajpaper.com; Website: www.neerajpaper.com;

Tel.: +91 11 47527700; **Fax -** +91 11 47527777 **NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General meeting of Shareholders of the Company will be held on Friday, 27th September 2024 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, and General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022, and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/ CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, and Circular No SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice.

Notice of the 29th AGM and Annual Report will only be sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 29th AGM is also available on the Company's website https://www.neerajpaper.com/notices_on the website of Stock Exchange www.Bseindia.com and on the website of www.evotingindia.com.

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses and KYC with the Company are requested to update their KYC by writing to the Company at cs@neerajpaper.com or company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services Private limited at beetalrta@gmail.comalong with the copy of the signed Forms available on the Company and RTA website. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM. In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General

011 29961281 or Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 022-23058542/43. By Order of the Board

Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beetalrta@gmail.com Telephone Nos.

FOR NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED eepa Kumari (Company Secretary & Compliance Officer)

HDFC BANK We understand your world

with effect from their respective dates

Type Of Loan

Legal Cell Plot # 31, Najafgarh Industrial Area, Tower-A, 1st Floor, Shivaji Marg, Moti Nagar, New Delhi - 110015

Outstanding as per

Name of Borrowers &

DEMAND NOTICE DEMAND NOTICE UNDER Sec 13(2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002. The following borrowers & co-borrowers availed the below mentioned secured loans from HDFC Bank Ltd. the loans of below mentioned borrowers & co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms & conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA's as per the RBI guidelines. Amounts due by them to HDFC Bank Ltd are mentioned in the following table and further interest on the said amounts shall also be payable as applicable and the same will be charged

acility and A/c No.	Co-borrowers/ Mortgagor	13(2)/Notice Date	Secured as Assets	of NPA
CASH CREDIT (ODAP) (A/C # 60200070674162)*	 M/s Paj Global (Borrower) Through Its Proprietor Sh. Prem Anand Jain - Office No. C-17, B-1, Ground Floor, Guru Nanak Pura, Laxmi Nagar, Delhi- 110092 Email Id: - premanand758@gmail.com Mr. Prem Anand Jain (Guarantor & Mortgagor) S/o Sh. Anand Jain - 20, Babar Lane, First Floor, Bengali Market, New Delhi-110001 Also At: - Mr. Prem Anand Jain S/o Sh. Anand Jain - KK-109, Ground Floor, Block-K, Kavi Nagar, Ghaziabad-202002 Mrs. Neha Devi (Guarantor) W/o Sh. Prem Anand Jain-3/6, Raj Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201002 Also At: - Mrs. Neha Devi W/o Sh. Prem Anand Jain - KK-109, Ground Floor, Block-K, Kavi Nagar, Ghaziabad-202002 to you in the address in which you originally reside / carry 	as on 18.04.2024 / Notice Date: 22nd April 2024	Measuring 163.44 Sq Mts, Block-k, Kavi Nagar, Ghaziabad Bounded As Under: - East - Road, West - Plot No. 110, North - Plot No. 229, South - Road, Owner Name : Mr. Prem Anand Jain, Type Of Property: Residential	

constrained to cause this notice published. You are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days of this notice failing which the Bank will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets For HDFC Bank Ltd., Authorised Officer Date: 28.08.2024, Place: DELHI

POSSESSION NOTICE AXIS BANK LTD. Retaill Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.

Registered Office: "Trishul"- 3rd Floor, Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006 Whereas the undersigned being the Authorized Officer of AXIS BANK LTD. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (2) read with Rule-8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule 8 of the Said Rules. The borrower's mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

	V	
Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the charged/ Mortgaged Property	Amt. Due as per Demand notice Date Demand notice
		Physical Possession Date
M/s Dinesh & Brothers (Borrower) Through Proprietor Yadhuveer Singh R/o Naveen Mandi, Karhal Dist. Mainpuri (U.P.)- 205264, Yadhuveer Singh (Proprietor) S/o Arjun Singh R/o Tarvarau Nagla Dansingh Takhrau, Dist Mainpuri UP-205268, Arjun Singh (Guarantor) S/o Parmeshwar Dayal R/o Tarvarau, Nagla Beera Karhal, Dist. Mainpuri UP-205268, Barjor (Guarantor) S/o Parmeshwar Dayal R/o Ahinsa Colony Karhal, Dist. Mainpuri UP-205264, Parmeshwar Dayal (Guarantor) S/o Ganga Deen R/o Nagla Dansingh Takhrau, Dist Mainpuri UP-205264	No. 136/2, Kisani Road, Karhal, Dist. Mainpuri (U.P.)-226001. Bounded as: East - House Of Chandrasen (now P/o Veerpal), West - House Of Mukhtayar Singh (now P/o Gur Dayal), North - House Of Leela Prakash (now H/o Nandu Sarita), South - Karhal To Kisani Road.	as on 17.04.2021 + interest & other expenses 03.05.2021 24.08.2024
Date- 28.08.2024 Authorized Officer, Axis Bank Ltd.		
59		



Regional Office -Delhi

The South Indian Bank LtdRegional Office--Delhi, 3rd Floor, Plot No.21, 21/1, Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi -110005, Phone-011 4233 1664/ 011 4512 8661 email-ro1008@sib.co.in.

Ref: DEL/CRD/SAR/35/2024-25

E - AUCTION SALE NOTICE

Date: 27-08-2024

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) and 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

1,M/s Alternative Learning Systems 2. Renju Jojo Mathew, E-32, E Block, 6, Manoj Kumar Singh, 206 Limited, 1st and 2nd Floor, Ashok Vihar, Phase - 1 North West, New SFS Flat, Dr. Mukhariee Aggarwal Auto Mall, Shalimar Delhi - 110052 3. Jojo Thayil Mathew, E- Nagar, Delhi - 110001 7. Place, District Centre, Shalimar 32, E Block, Ashok Vihar, Phase - 1 Manish Kumar Gautam, D-Bagh, New Delhi - 110088 Also at B North West, New Delhi - 110052 4. Preeti 187, Ashok Vihar, Phase - 1. 19, ALS House, Commercial Sharma, H. No. 38-D, Arjun Apartment, New Delhi-110052 Complex, Mukherjee Nagar, New Vikaspuri, Delhi - 110018 5. Shashank Atom, H. No. 38-D, Arjun Appartment, Delhi - 110009 Vikaspuri, Delhi - 110018

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the borrower/guarantor/Legal heirs that the below described immovable property mortgaged to the South Indian Bank Ltd, Branch New Delhi Karol Bagh (Secured Creditor), the Physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of The South Indian Bank Limited (Secured Creditor), will be sold on "as is where is" basis, "as is what is" and "whatever there is" condition on the date and at the place mentioned herein below for realization of a sum of Rs. 24,87,32,034.59 (Rupees Twenty Four Crore Eighty Seven Lakh Thirty Two Thousand Thirty Four and Paisa Fifty Nine Only) as on 31.07.2024, with future interest, costs and expenses etc. thereon due to The South Indian Bank Limited, Branch Karol Bagh (Secured Creditor), from the above mentioned Borrower(s) and guarantor(s).

Description of the Immovable Property (Immovable properties secured to the account) Item No.1 Name of Property Owner M/s Alternative Learning Systems Limited (Unit No. 101) &

Manoj Kumar Singh (Unit No. 102) All that piece and parcel of commercial Unit bearing No. 101, on 1st Floor, 'Aggarwal Description of property Auto Mall' without roof /terrace rights, having a built-up area admeasuring 10650.00 Sq. ft. or 989.32 Sq. Mtrs., a part of freehold commercial building, built on Plot No. Site-II, District Centre at Shalimar Place, Shalimar Bagh Delhi measuring 6654.00 Sq. Mtrs. along with proportionate rights of land attached thereto along with all their ownership rights, titles, interest or liens, easements, privileges and appurtenances therein and owned by M/s Alternative Learning Systems Limited morefully described in Sale Deed no 4220/2014 dated 22-04-2014 and registered on 24-04-2014 of Sub-Registrar VI A New Delhi/Delhi and bounded on North: Open Below; South: Open Below; East: Other Unit, Part-II/Entry; West: Open Below AND All that piece and parcel of commercial Unit bearing No. 102, on 1st Floor, 'Aggarwal Auto Mall' without roof /terrace rights, having a built-up area admeasuring 10650.00 Sq. ft. or 989.32 Sq. Mtrs., a part of freehold commercial building, built on Plot No. Site-II, District Centre at Shalimar Place, Shalimar Bagh Delhi measuring 6654.00 Sq. Mtrs. along with proportionate rights of land attached thereto along with all their ownership rights; titles, interest or liens, easements, privileges and appurtenances therein and owned by Manoj Kumar Singh morefully described in Sale Deed no 6731/2014 dated 19-06-2014 and registered on 20-06-2014 of Sub-Registrar VI A New Delhi/Delhi and bounded on North: Open Below: South: Open Below: East: Open Below; West: Other Unit, Part-I

> Item No.2 Jojo Thayil Mathew & Ms. Renju Jojo Mathew (Unit No. 201) & Shashank Atom & Preeti Sharma (Unit No. 202)

All that piece and parcel of commercial Unit bearing No. 201, on 2nd Floor, Description of property Aggarwal Auto Mall' without roof /terrace rights, having a built-up area admeasuring 10650.00 Sq. ft. or 989.32 Sq. Mtrs., a part of freehold commercial building, built on Plot No. Site-II, District Centre at Shalimar Place, Shalimar Bagh Delhi measuring 6654.00 Sq. Mtrs. along with proportionate rights of land attached thereto along with all their ownership rights, titles, interest or liens, easements, privileges and appurtenances therein and owned by Jojo Thayil Mathew & Ms. Renju Jojo Mathew morefully described in Sale Deed no 11118/2014 dated 9-10-2014 and registered on 10-10-2014 of Sub-Registrar VI A New Delhi/Delhi and bounded on North: Open Below; South: Open Below; East: Other Unit, Part-II/Entry; West: Open Below AND All that piece and parcel of commercial Unit bearing No. 202, on 2nd Floor, 'Aggarwal Auto Mall' without roof /terrace rights, having a built-up area admeasuring 10650.00 Sq. ft. or 989.32 Sq. Mtrs., a part of freehold commercial building, built on Plot No. Site-II, District Centre at Shalimar Place, Shalimar Bagh Delhi measuring 6654.00 Sq. Mtrs. along with proportionate rights of land attached thereto along with

all their ownership rights, titles, interest or liens, easements, privileges and

appurtenances therein and owned by Shashank Atom & Preeti Sharma morefully

described in Sale Deed no 14296/2016 dated 28-10-2016 of Sub-Registrar VI A

New Delhi/Delhi and bounded on North: Open Below; South: Open Below; East;

	Open Below; West: Unit No. 201
Reserve Price(item No.1)	Rs. 21,65,00,000/- (Rupees Twenty One Crores Sixty Five Lakhs Only)
Earnest Money Deposit (EMD)(item No.1)	Rs. 2,16,50,000/- (Rupees Two Crore Sixteen Lakhs Fifty Thousand Only) EMD shall be deposited on or before 12.09.2024 till 02.00 PM
Reserve Price(item No.2)	Rs. 21,00,00,000/- (Rupees Twenty One Crores Only)
Earnest Money Deposit (EMD)(item No.2)	Rs. 2,10,00,000/- (Rupees Two Crore Ten Lakhs Only) EMD shall be deposited on or before 12.09.2024 till 02.00 PM
Bid Increment amount Item No.1	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)
Bid Increment amount Item No.2	Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)
Date and time of E-auction Item No.1	13-09-2024 from 11.00 AM to 11.30 AM (with 5 minute unlimited auto extension till sale is concluded)
Date and time of E-auction Item No.2	13-09-2024 from 01.00 PM to 01.30 PM (with 5 minute unlimited auto extension till sale is concluded)

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in web portal of South Indian Bank Ltd, (Secured Creditor) website i.e. www.southindianbank.com. Details also available at https:/bankauctions.in. For any further clarification with regards to inspection of property, terms and conditions of the e-auction or submission of bids, kindly contact South Indian Bank Ltd on 9830-925-192 / 7309-655-552 (contact number). Place: Delhi **AUTHORISED OFFICER**

financialexp.epapr.in

Name of Property Owner

Encumbrances known to Nil/ Encumbrances from 01-01-2017 to 23-06-2023. the Bank(Item No.1)

the Bank (Item No.2)

New Delhi

Encumbrances known to Nil/ Encumbrances from 01-01-2017 to 23-06-2023.